



T.V. और भूवी

ईस रिहावे में ...

- अक मुफ्ती साहिब का प्वाब
- आठ भडारें
- निगाहे वही की तासीर
- 99 ई सद घरों में टीवी
- T.V. का शर-ई ईस्ते'माव
- भूवी का शर-ई हुकम
- अभीरे अडवे सुन्नत के तअस्सुरात



पेशकश : **मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया** (दा'वते ईस्लामी)



मकत-अतुल मदीना® शो'अचे ईस्लामी कुतुब
सिलेक्टेट हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, जासबाजार, तीन दरवाजा,
अहमदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया Ph: 91-79- 2539 11 68

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

T.V. और मूवी

शैतान लाभ सुस्ती दिलाओ मगर इस रिसाले को अक्वव ता आबिर जरूर पढें.

दुइए शरीफ़ की इमीलत

आशिके आ'ला उजरत, अभीरे अहले सुन्नत जानिये दा'वते इस्लामी, उजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अतार कादिरि रजवी जियाई دائم برکاتہم العالیہ अपने रिसाले जियाओ दुइओ सलाम में इरमाने मुस्तफ़ा صلى الله تعالى عليه وآله وسلم नकल इरमाते हैं, “जो मुज पर शबे जुमुआ और जुमुआ के रोज़ सौ बार दुइए शरीफ़ पढे, अल्लाह तआला उस की सौ हाजतें पूरी इरमाओगा.”

(अतफ़सीर दुर्रे मन्सूर, जि.6, स.604)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

वक्त की जरूरत

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो! इी जमाना हाहात बडी तेजी के साथ तनज़ुली की तरफ़ बढते ही गले जा रहे हैं. अक तरफ़ बे अमली का सैलाब अपनी तबाही मया रहा है तो दूसरी तरफ़ बढ अकीदगी के भौइनाक तूफ़ान की हाँलनाकियां बरबादी के भयानक मनाज़िर पेश कर रही हैं.

इन हाहात में भीडिया का तर्जे अमल भी सब के सामने है. इहूहाशी और उर्यानी इैलाने में इस का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं, इस से भी जियादा काबिले तशवीश बात येह है के गैर मुस्लिम कुव्वतें (ब शुमूल कादियानी गुरोह) और इस्लाह के नाम पर गुमराह कुन अकाईद का परचार करने वाले लोग भी इस जरीओ को अपने मज़मूम मकासिद के लिये मुसल्सल इस्ते'माल कर रहे हैं.

“अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश” के सिव्सिले में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी की कारकईगी मोहताजे बयान नहीं और दा'वते इस्लामी के बानी और अभीर, शैबे तरीकत, अभीरे अहले सुन्नत, उजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अतार कादिरि रजवी जियाई دائم برکاتہم العالیہ से कौन वाकिफ़ नहीं. आप صلى الله تعالى عليه وآله وسلم वोह यादगार सलफ़ शजिसियत हैं जो कसीरुल करामत बुजुर्ग़ा होने के साथ साथ इल्मन व अमलन, कौलन व इे'लन, जाहिरन व बातिनन अहकामाते इलाहिय्या की बजा आवरी और सुनने नबविय्या की पैरवी करने और करवाने की भी रौशन नजीर हैं. आप अपने बयानात, तहरीरी रसाइल, मल्हूजात और मक्तूबात के जरीओ अपने मुतअव्लिकीन व हीगर मुसल्मानों को इस्लाहे आ'माल व अकाईद की तल्कीन इरमाते रहते हैं. आप के काबिले तक्लीद मिसाल किरदार, और ताबेओ शरीअत बे लाग गुफ़तार ने सारी दुन्या में लाभों मुसल्मानों बिल्भुसूस नौ जवानों की जिन्दगियों में म-दनी इन्किलाब बरपा कर दिया है.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ! येह आप ही की कोशिशों का नतीजा है के इस मुप्तसर से अरसे में दा'वते ईस्लामी का पैगाम (ता दमे तहरीर) दुन्याके तकरीबन 60 मुमालिक में पछोंय युका है. हजारों मकामात पर सुन्नतों भरे हस्तावार ईजितमाआत और सुन्नतों की तरबिख्यत के म-दनी काङ्किलों में सफ़र करने वाले बे शुमार मुबद्विगीन इस मुकदस जजबे के तहत ईस्वाहे उम्मत के कामों में मस्ज़ुह हें के “मुजे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की ईस्वाह की कोशिश करनी है.” اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ और दीगर आशिकाने रसूल की येह म-दनी कोशिशें अद्लाह व रसूल عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की भारगाह में किस क-दर मकबूल हें इस का अन्दाजा इस ईमान अझरोज बिशारत से लगाईये.

भारगाहे रिवाल ﷺ में दा'वते ईस्लामी मकबूलिख्यत

हिन्द के अक मुहंती साहिब مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي ने हड्किया बताया के मैं ना वाकिफ़िख्यत और गलत इहमी के बाईस दा'वते ईस्लामी और क़िबला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ का सप्त मुमालिक़ था. यूंके मुजे बडे बडे जल्सों में तकरीर का मौकअ मिलता रहता है तो वहां भी मैं उन के बिलाइ पूब भोलता था.

अक रात जब मैं सोया तो मेरी किस्मत अंगडाई ले कर जग उठी. मैं ने देभा, अक नूरी तप्त है जिस पर डुजूर पुरनूर शाईअे यौमुन्नुशूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तशरीफ़ इरमा हें. सामने कसीर ईस्लामी भाई मौजूद हें जो सरो पर सज्ज ईमामे का ताज सज्जअे सफ़ेद लिबास में मल्बूस अक बडे सुतून को पकड कर हिलाने में मस्ज़ुह हें और आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उन्हें मुस्करा मुस्करा कर मुला-हज्ज इरमा रहे हें. मैं ने उन लोगों को पहयाना के येह हुल्या तो दा'वते ईस्लामी वालों का है. मैं ने सरकारे मदीना, सुइरे कल्बो सीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की बिदमत में अर्ज की के येह कौन लोग हें? नबिख्ये करीम, रउिफ़ुरडीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने मुस्कराते हुअे ईशाद इरमाया “येह मेरे आशिक हें और ईस्लाम दुश्मन कुव्वतों को जडों से उपाड कर इंकने में मस्ज़ुह हें.” जब मैं बेदार हुवा तो दा'वते ईस्लामी और अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ का मुहिब्ब बन युका था, मेरी गलत इहमियां दूर हो युकी थीं और अब मैं तकरीबन हर भयान में और तहरीर के जरीअे दा'वते ईस्लामी की इन्किलाबी कारकदगी का यर्या करता हूं.

T.V. पर भयान और अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ अद्लाह व रसूल عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के पास करम से दा'वते ईस्लामी नेकी की दा'वत को आम करने के लिये दिन रात मस्ज़ुह अमल है. आज जब के मीडिया का दौर है तो नेकी की दा'वत को तेजी से फैलाने के लिये दा'वते ईस्लामी ने जुरअत मन्दाना कदम उठाते हुअे T.V. के जरीअे अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ की रिक्त अंगेज दुआ (बिगैर येहरे के मलज आवाज के जरीअे) भयक वक्त दुन्या के तकरीबन 144 मुमालिक में पछोंयाने की तरकीब बनाई तो न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्के दुन्या के मुप्तलिइ मुमालिक से भी मुबारक बाद के झोन, पुतूत और बहारे मौसूल होना शुरुअ हो गईं जिन में से यन्द मुन्तभब

બહારેં અપને અલ્ફાઝ મેં પેશે ખિદમત હેં,

“ફેઝાને દુઆ” કે આઠ હુરૂફ કી નિસ્બત સે 8 બહારેં

(1) વાલિદ કી નારાઝગી

બાબુલ ઈસ્લામ સિન્ધ કે શહર હૈદરઆબાદ કે અલાકે હીરઆબાદ કે મુબલ્લિગે દા'વતે ઈસ્લામી ને બતાયા કે 3, 2-મઝાનુલ મુબારક સિને 1426 હિજરી કો કશ્મીર, સરહદ ઓર પંજાબ કે બા'ઝ મકામાત પર આને વાલે ખૌફનાક ઝલ્લાલે કે મુતઅસ્સિરીન કી દા'વતે ઈસ્લામી કે તહત હોને વાલી કસીર ઈમ્દાદ કા સિલ્સિલા મેરે વાલિદ સાહિબ કે ઈલ્મ મેં નહીં થા. ચૂંકે દા'વતે ઈસ્લામી સિયાસી તહરીક નહીં હૈ લિહાઝા અખ્બારાત વ મીડિયા દા'વતે ઈસ્લામી કી ઈન્ફિરાદી અઝીમુશ્શાન ખિદમાત કો પેશ કરને કે બજાએ, અપને મફાદાત કે પેશ નઝર ખબરેં દે રહે થે. મેરે વાલિદ દા'વતે ઈસ્લામી કી ઝલ્લાલા ઝદગાન કી ઈમ્દાદ કે સિલ્સિલે મેં લા ઈલ્મ હોને કે બાઈસ સપ્ત નારાઝ થે ઓર બાર બાર કેહતે કે, “દા'વતે ઈસ્લામી કે અમીર, અલ્લામા મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી دامت برکاتہم العالیہ કો ફોન કરૂંગા કે ઈસ મૌકઅ પર આપ લોગ ક્યૂં ખામોશ હેં?” એસે મેં કિબ્લા શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત دامت برکاتہم العالیہ ને એક અહમ્મ ફૈસલા ફરમાયા ઓર T.V. પર બ ઝરીએ ટેલીફોન સુવાલાત કે જવાબાત દેને કે સાથ જામેઅ દુઆ ફરમાઈ. ઓર ઝલ્લાલા ઝદગાન કી ઈમ્દાદ કે સિલ્સિલે મેં દા'વતે ઈસ્લામી કી ખિદમાત બયાન ફરમાઈ.

મેરે વાલિદ યેહ સુન કર ન સિર્ફ મુતમઈન હુએ બલકે ઈન્તિહાઈ નાદિમ ભી થે કે મુઝે તો આજ મા'લૂમ હુવા કે દા'વતે ઈસ્લામી ઈસ ક-દર અઝીમુશ્શાન તરીકે સે ઝલ્લાલા ઝદગાન કી ખિદમત મેં મસ્રૂફ હૈ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(2) આવાઝ મેં સોઝો રિક્કત

સૂબા સિન્ધ કે મુકીમ એક અહમ્મ ઝિમ્માદાર ઈસ્લામી ભાઈ ને બતાયા કે T.V. પર અમીરે અહલે સુન્નત دامت برکاتہم العالیہ કે ઈર્શાદાત વ દુઆ આને પર લોગોં સે અચ્છે તઅસ્સુરાત પાએ ગએ ઓર દા'વતે ઈસ્લામી કી ઝલ્લાલા ઝદગાન સે મુતઅલ્લિક ખિદમાત લોગોં સે પોશીદા થીં, જિસ કે બાઈસ વોહ બદ ગુમાન હો રહે થે. અમીરે અહલે સુન્નત دامت برکاتہم العالیہ ને T.V. પર બ ઝરીએ આવાઝ તશરીફ લા કર લાખોં મુસલ્માનોં કો બદ ગુમાની, ગીબત, બોહતાન તરાશી જૈસે કબીરા ગુનાહોં સે બયાને કે સાથ સાથ ઉન કરોડોં મુસલ્માનોં કે દિલોં મેં ખુશી દાખિલ કરને કા સામાન ભી ક્રિયા જો આપ કે T.V. પર આને કે ખ્વાહિશમન્દ થે. ઉન કા કેહના હૈ કે એક ઈન્તિહાઈ મોઝર્ન ઘરાને કો દેખા ગયા કે દૌરાને દુઆ તમામ ઘરવાલે હાથ ઉઠા કર દુઆ મેં મસ્રૂફ થે ઓર ઉન કી આંખોં સે આંસૂ જારી થે. બા'દે દુઆ વોહ ઘરવાલે દીની માહૌલ સે દૂર હોને કે બા વુજૂદ યેહ કેહતે દિખાઈ દિયે કે, “ઈલ્યાસ કાદિરી સાહિબ مد ظله العالی કી આવાઝ મેં કિસ ક-દર દર્દ ઓર સોઝ હૈ હમારા તો રુવાં રુવાં કાંપ રહા થા. ”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(3) કરાચી યૂનિવર્સિટી કા તાલિબે ઇલ્મ

બાબુલ મદીના (કરાચી) યૂનિવર્સિટી કે એક તાલિબે ઇલ્મ ને કુછ ઇસ તરહ કી પર્યા દી કે પહલે મેં દા'વતે ઇસ્લામી વાલોં કો પુરાને ખયાલાત પર મબ્ની સોચ કા હામિલ સમજતા થા. ઇસી વજહ સે મેં ઉન સે દૂર થા ઓર બદઝન થા. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْغَالِيَةِ** કે T.V. પર (મહઝ આવાઝ કે ઝરીએ) દુઆ કરવાને ઓર મૂવી કે ઝરીએ તબ્લીગ કી તૈયારિયોં કા સુન કર મેં મુત્મઈન હો ગયા હૂં, અબ મેરા ઝેહન સાફ હો ગયા હૈ.

લિહાઝા મેં ને દા'વતે ઇસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હોને કી નિચ્ચત કર લી હૈ ઓર યેહ ભી નિચ્ચત કરતા હૂં કે દાઢી શરીફ રખને કે સાથ સાથ ઇમામા શરીફ ભી સજાઉંગા.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(4) સોહબતે બદ સે નજત

એક ઇસ્લામી ભાઈ ને બતાયા કે હમારે પડોસ મેં એક સુન્ની ઘરાના બદ અકીદા લોગોં કી સોહબત કે બાઈસ અકાઈદ કે મુઆમલે મેં તઝબ્ઝુબ કા શિકાર હો ચુકા થા. ઇસી ઘર કે એક ફર્દ ને બતાયા કે જબ 27વીં શબ અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْغَالِيَةِ** કી દુઆ T.V. પર શુરૂઅ હુઈ તો હમ સબ ઘરવાલે શરીક હો ગએ, દુઆ ઇસ ક-દર પુર સોઝ થી કે સારે ઘર વાલે રો રહે થે ઓર મેરી હાલત સબ સે ઝિયાદા ગૈર થી.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ મુઝ સમેત તમામ ઘરવાલે અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْغَالِيَةِ** સે મુરીદ હો કર અત્તારી બન ગએ. હમ ને દા'વતે ઇસ્લામી કે સુન્નતોં ભરે ઇજતિમાઆત મેં શિર્કત કી ભી નિચ્ચત કી હૈ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(5) હૈરત અંગેઝ તોબા

એક ઇસ્લામી ભાઈ ને બતાયા કે હમારે અલાકે મેં એક શપ્સ જો અલાકે કા બદનામ તરીન શપ્સ થા ઓર અરસએ દરાઝ સે જૂએ કા અઙ્ઙા ભી ચલા રહા થા. 27 વીં શબ ભી આકડે કે નમ્બર દેને મેં મસ્રૂફ થા, ઇતને મેં કરીબ હોટલ પર ચલને વાલે T.V. પર અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْغَالِيَةِ** કી દુઆ શુરૂઅ હો ગઈ.

દુઆ કી કશિશ ને ઇસ આકડે કે નમ્બર દેન વાલે કો ભી અપની તરફ મુતવજજેહ કર લિયા ઓર વોહ ભી આ કર દુઆ મેં શરીક હો ગયા. દેખને વાલે હૈરત ઝદા થે કે દેખતે હી દેખતે ઉસ શપ્સ પર જો શાયદ અપને કિસી અઝીઝ કી મૌત પર ભી ન રોયા હો ઇન્તિહાઈ રિકકત તારી હો ગઈ ઓર વોહ હિચકિયાં લે લે કર રોને લગા. દુઆ ખત્મ હો ચુકી થી મગર ઉસ શપ્સ પર રિકકત તારી થી.

સુબ્હ જબ લોગ ફજા કી નમાઝ કે લિયે પહોંચે તો યેહ દેખ કર હૈરાન રહ ગએ કે રાત જો આકડે કે નમ્બર દે રહા થા. વોહ શપ્સ સર ઝુકાએ પહલી સફ મેં નમાઝ કે લિયે મૌજૂદ થા.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(6) मुजाबिह मुहिब्ब बन गया

हुसैनआबाद के मुकीम अक ईस्लामी भाई ने बताया के अक कोविड का क्वार्ड गलत इलमी के बाईस दा'वते ईस्लामी से बढजन था और आखे दिन मुज से इप्तिदाई गुफ्तुगू करता और बे सरोपा अे'तेराजात कर के परेशान करता रहता. मैं ईस से सामना होने पर अक्सर कतरा जाता क्यूं के वोह जमान का बडोत तेज था.

27 र-मजानुल मुबारक को इत्तिहाक से मेरा इन से सामना हो गया मैं नजर बया कर निकलने ही लगा था के उस ने मुझे आवाज दी और केहने लगा : "मैं ने मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की T.V. पर रिले (Relay) होने वाली दुआ में शिकत की, बडा सुइर मिला और أَحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ मैं भी अत्तारी बन गया हूं."

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(7) कैदियों की तौबा

सूबअे पंजाब के शहर "कुसूर" में दा'वते ईस्लामी के मुबद्लिगीन की इन्डिरादी कोशिश की ब-र-कत से जेल इन्तिजामिया ने र-मजानुल मुबारक सिने 1426 डिजरी के आबिरी अशरे में 48 कैदियों को नफली अे'तिकाइ की इजाजत दे दी. युनान्ये येह मो'तकिइ कैदी सुब्ह 10 बजे से दो पहर 4 बजे तक इराइज व वाजिबात और सुन्नतें सीपने सिपाने के हडकों में शिकत किया करते. दौराने अे'तिकाइ 27वीं शब बानिये दा'वते ईस्लामी अभीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की T.V. पर रिले (Relay) होने वाली दुआ सुनाने का जेल में इन्तिजाम किया गया था. जब दुआ शुइअ हुई तो इन्तिहाई रिक्त अंगेज मन्जर था, तमाम कैदी हाथ उठाअे रो रो कर अपने गुनाहों पर नाइम हो कर तौबा कर रहे थे. इन सब ने आइन्दा गुनाह न करने का अज्म किया और अभीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ के जरीअे सिव्सिलअे आदिय्या कादिरिय्या र-जविय्या अत्तारिय्या में दाबिल हो कर अत्तारी भी बन गअे.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(8) होटल के मालिक की तौबा

अक ईस्लामी भाई का बयान है के जब में जेल में मो'तकिइीन की भैरज्वाही के सिव्सिले में सहरी के वक्त रोटियां लेने के लिये अक होटल पर पड़ोया तो देभा के होटल के मालिक पर भी रिक्त तारी थी. ईस ने बताया के अभी मैं भी T.V. पर होने वाली दुआ में शरीक था, दुआ के दौरान मुझे बडोत रोना आया और मैं ने अपने तमाम गुनाहों से भी तौबा कर ली है और आइन्दा बयने का अहद भी किया है आप दुआ करें के अद्लाह इस्तिकामत दे. इर उस ने रोटियों की रकम में भी काई रियायत की. उसी वक्त होटल में मौजूद अक और शप्स ने बताया के मैं भी दुआ में शरीक था, मैं जिन्दगी में पहली बार गुनाहों को याद कर के इतना रोया हूं. येह केहते हुअे उस ने हाथों हाथ तीन हजार रुपै सहरी व इइतारी की मद में कुल्ली इप्तियारात के साथ पेश किये.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَه और मूवी

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! ता दमे तहरीर अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَه का न येहरा T.V. पर देखा गया है न ही मूवी मन्जरे आम पर आई है, ता हम दुन्या के कसीर मुमालिक के लोगों का इस पर इस्सारे है के “जब कसीर मुस्लियाने किराम के मुताबिक अज इमे शर-अ जाईज उमूर की मूवी फ़िल्म देबना, बनाना और बनवाना जाईज है. लिहाजा अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَه को इस्लाहे उम्मत के अजीम मकसद के पेशे नजर अपनी मूवी मन्जरे आम पर लाने की इजाजत दे देनी चाहिये. (मूवी बनाने या बनवाने और टीवी पर आने के बारे में मुस्लियाने किराम का मोकिफ़ मुला-हजा करने के लिये इस रिसाले के आबिर में दिया गया इत्वा पढ लीजिये.)

म-दनी धलिजा : अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَه की बारगाह में भी बार बार कुछ इस तरह से अर्ज की जा रही है के शर-ई इजाजत से फ़ाईदा उठाते हुये सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह के मुकदस जजबे के तहत न जरीअे मूवी भी लोगों की इस्लाह की कोशिश इरमाईये. اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ सारी दुन्या इस की बरकात से मुस्तफ़ीज होगी.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَلْعَالِيَه पर अल्लाह व रसूल عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का पास करम है. इन की शप्सियत में अल्लाह तआला ने ऐसी तासीर अता इरमाई है के कई गुनाहगार सिर्फ़ आप की जियारत की न-र-कत से ही ताईब हो जाते हैं, नेकूकारों की रिक्तते कल्बी में इजाफ़ा होता है और आप की सोलहत इस्लाहे आ'माल का जरीआ बनती है. इस ज़िम्न में दो इमान अइरोज सय्ये वाकेआत का न गौर मुतालआ इरमाअें.

निगाहे विलायत की तासीर

अक इस्लामी भाई ने उल्लिखित बताया के मेरी मुलाक़ात अक सभ्ज इमामा सज्जअे हुये नौ जवान से हुई जिस के येहरे पर इबादत का नूर यमक रहा था. उनडों ने बताया के अक शप्स जो मुआशरे का इन्तिहाई बद किरदार शप्स था और अक लिसानी तन्जीम से उस की वाबस्तगी थी, वोह मुआलिफ़ ज़बान वालों से इन्तिहाई नइरत करता था. उस के शहर में अक मुआलिफ़ ज़बान का शप्स पकोडे बेया करता था. इस का मा'मूल था के वोह रोजाना उस से बीस 20 रुपै मालियत के पकोडे खाता और ठन्डे होने की सूरत में पहले मार पीट करता फिर उस से पकोडे गर्म करवाया करता.

अक दिन बाबुल मदीना (करायी) से उस के दोस्त की तरफ़ से शादी का दा'वत नामा मिलने पर, जब येह शादी में शिर्कत के लिये करायी पड़ोया तो अपने दोस्त को देख कर हैरान रह गया के वोह दोस्त जो कदम न कदम गुनाहों की मन्जिल पर अक अरसे तक साथ चलता रहा था उस के सर पर सभ्ज इमामा शरीफ़ का ताज सज्ज हुवा था, येहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढी थी और वोह सईद सुन्नतों भरे लिबास में मलबूस निगाहें जुकाअे षडा था. यूंके वोह माजी में उस से इन्तिहाई बे तकल्लुफ़ था, लिहाजा उस ने तइरीह लेने के अन्दाज में इस पर यन्द् जुम्ले कसे मगर उस का वोह दोस्त जो पहले इन्तिहाई हाज़िर जवाब मशहूर था, उस ने जवाब देने

के बजाओ मलज मुस्करा कर सर जुका दिया. उस का येह अन्दाज देण कर वोह मजीद कुछ न बोल सका.

यन्त दिन शादी की गलमा गलमी रही. हईते के दिन उस के दोस्त ने दा'वत दी के मेरे पीरो मुर्शिद जो जमाने के वली और तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की गैर सियासी तहरीक दा'वते ईस्लामी के बानी और अभीर हैं, उन का बयान सुनने चलना है. जब वोह ईजाने मदीना पछोंये तो बयान ईप्तिताम के करीब था. आ'दे बयान अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ की मुलाकात शुरूअ हुई और दोस्त ने मुलाकात के लिये उस का जेहन बनाया, तो वोह केहने लगा के तुम जानते हो के मैं खुद शप्सियत हूं मेरी मुलाकात के लिये तो खुद कितार लगती है, मैं किसी से मिलूं! येह कैसे मुम्किन है? पैर मुबद्लिग ने दोस्त पर ईन्फिरादी कोशिश जारी रखी. आपिर वोह ईस शर्त पर अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ से मुलाकात के लिये तैयार हुवा के कितार में जो शप्स तीसरे नम्बर पर भडा है मुझे उस की जगह भडा किया जाओ.

मुबद्लिगे दा'वते ईस्लामी ने कितार में भडे शप्स को सूरते डाल बताई और अर्ज की "के हो सकता है के अह्लाह के वली से मुलाकात व जियारत से उस के दोस्त की जिन्दगी में म-दनी ईन्किलाब बरपा हो जाओ." वोह मान गया और यूं उसे तीसरे नम्बर पर भडा कर दिया गया.

जब वोह अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ के सामने पछोंया और उस ने नजर उठा कर अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ के येहरअे मुबारक की तरफ देखा और अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ की निगाहे विलायत जब उस पर पडी तो देणने वालों ने देखा के वोह शप्स जो कुछ देर पहले तक मुलाकात पर आमादा नहीं हो रहा था, अब उस की आंभों से आंसू बह रहे थे और जिस्म पर कपकपाहट तारी थी. वोह कुछ देर अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ के मुबारक हाथों पर सर रखे रोता रहा फिर जज्बात में आ कर भडा हो कर और हाथ ईलाओ खीप खीप कर केहने लगा, "अब पूरी रात कोई नहीं मिलेगा, बस मैं देखूंगा, मैं मिलूंगा, और कोई नहीं देखेगा, और कोई नहीं मिलेगा." वोह येह केहता जा रहा था और उस के आंसू बहते जा रहे थे.

अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ ने उसे बडी शकत से समजाया के न जाने लोग कहां कहां से मुलाकात के लिये आते हैं और हुकूकुल ईबाद के भी मुलामआत हैं. और उस की कमर पर शकत भरी थपकी दी तो वोह रोता हुवा आप के कदमों में बैठ गया और काई देर तक वहीं बैठे बैठे रोता रहा. जब मुलाकात अत्म हुई तो वोह शप्स अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ के कदमों से उठ गया, ईस दौरान वोह ईमामा शरीफ और दाढी शरीफ की निखत कर चुका था. वोह कमो बेश 15 दिन तक बाबुल मदीना में रहा और अभीरे अहले सुन्नत دائمة برکاتہم العالیہ की भिदमत में छाजिर हो कर सहरी व ईईतारी में शिकत की सआदत भी पाता रहा.

उस के दिलो दिमाग को ऐसी पाकीजगी नसीब हुई के जब वोह वापस अपने शहर लौटा तो सर पर सज्ज ईमामा शरीफ का ताज सजाओ हुओ था और येहरे पर दाढी शरीफ के कुछ बाल भी बढ चुके थे. ईसी हालत में वोह उस पकोडे वाले (जिसको रोजाना तंग किया करता था) के पास जा कर भरे बाजार में उस के कदमों में गिर पडा और रो रो कर मुआई मांगने

લગા. સબ લોગ ઈસ હૈરત અંગેઝ તબ્દીલી પર હૈરાન થે ઓર હકીકતે હાલ જાનને પર કિસી ને કહા કે

નિગાહે અતાર મેં યેહ તાસીર દેખી બદલતી હઝારોં કી તકદીર દેખી

ફૌજ અફસર કે આંસૂ

એક ઈસ્લામી ભાઈ ને હલ્કિયા બતાયા કે તીન ફૌજ અફસરાન અમીરે અહલે સુન્નત કી બારગાહ મેં મુલાકાત કી ગ-રઝ સે હાઝિર હુએ તો એક મુબલિગ ને ઈન્કિરાદી કોશિશ કરતે હુએ ઉન્હેં મ-દની માહૌલ કી બ-ર-કતેં બતાઈ. ફિર અમીરે અહલે સુન્નત કે આસ્તાને મેં ખાને કી તરકીબ હુઈ.

ઉન ઈસ્લામી ભાઈ કા કેહના હૈ કે અમીરે અહલે સુન્નત ખાના તનાવુલ ફરમા રહે થે, દીગર અફરાદ ભી ખાને મેં મસ્રૂફ થે કે ઈતને મેં અમીરે અહલે સુન્નત કે સાથ ખાને મેં શરીક એક ફૌજ અફસર કે રોને કી આવાઝ સુન કર મેં ને જૈસે હી પલટ કર દેખા તો યેહ દેખ કર હૈરાન રહ ગયા કે ફૌજ અફસર કે પૂરે જિસ્મ પર લઝા તારી થા ઓર ઉસ કી હિયકિયાં બંધી હુઈ થીં. વોહ ટિકટિકી બાંધે અમીરે અહલે સુન્નત કે યેહરે મુબારક કી ઝિયારત કર રહા થા ઓર રોતા જા રહા થા જબ કે નિવાલા ઉસ કે હાથ સે ગિર ચુકા થા. કમરે મેં અજબ રિક્કત અંગેઝ માહૌલ બન ગયા. ઓર હૈરત કી બાત યેહ થી કે અમીરે અહલે સુન્નત ને (અપની ઝબાન સે) ન તો કોઈ બયાન ફરમાયા ઓર ન હી આપ ને કોઈ મલ્ફૂઝાત ઈર્શાદ ફરમાએ બલકે આપ તો ખાને મેં મસ્રૂફ થે મગર વોહ ફૌજ અફસર સિર્ફ આપ કે યેહરએ મુબારક કો દેખ દેખ કર રોએ જા રહા થા. વાકેઈ “વલિયે કામિલ” કી પહચાન કિસીને સહીહ બતાઈ, કે જિસે દેખ કર અલ્લાહ કી યાદ આ જાએ.

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! ઈસ સે મા'લૂમ હુવા કે મૂવી કે ઝરીએ અગર પૂરી દુન્યા કો અમીરે અહલે સુન્નત કી ઝિયારત કી સઆદત મિલ જાએ તો ન જાને કિતને લોગોં કી બિગડી બન સકતી હૈ ઓર હઝાર હા લોગોં કી ઝિન્દગિયોં મેં મ-દની ઈન્કિલાબ બરપા હો સકતા હૈ.

તકવા ઓર પરહેઝગારી કે અન્વાર

ફી ઝમાના T.V. પર આને વાલે અક્સર લોગ ઉમૂમન લફઝોં કે ખેલ કે માહિર ઓર ઝાહિરી શખ્સિયત કે હામિલ હોતે હૈં. એસે હાલાત મેં અગર ઝમાને કે વલી સિલ્સિલએ આલિય્યા કાદિરિય્યા કે અઝીમ બુરુગ યાદગાર સલફ શખ્સિયત, શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત કા યેહરએ મુબારક તકવા પરહેઝગારી ઓર ઈબાદત કે અન્વાર સે મુનવ્વર હૈ, જિન કી ઝિયારત કરને વાલે કી ઝબાન પર બે સાપ્તા “سُبْحَانَ اللَّهِ” જારી હો જાતા હૈ, આંખેં જઝબાતે તઅસ્સુર સે ભીગ જાતી હૈં, જિન કે ખૌફે ખુદા ઓર ઈશકે રસૂલ કી કેફિયત વ રિક્કત સપ્ત સે સપ્ત દિલોં કો ભી નર્મ કર દેતી હૈ, જિન કી સોહબત ઝરીઅએ ઈસ્લાહે આ'માલ હૈ, કરોડોં કુલૂબ જિન કી મહબ્બત મેં ગરિફતાર ઓર આંખેં ઝિયારત કે લિયે બે કરાર હૈં, મૂવી કી શર-ઈ

ઇજાઝત સે ફાઈદા ઉઠાતે હુએ ઉમ્મત કી ઈસ્લાહ કે મુકદ્દસ જઝ્બે કે તહત **V.C.D.** કે ઝરીએ દુન્યા કે સામને જલ્વા ફરમા હોં તો સારી દુન્યા મેં મ-દની ઈન્કિલાબ બરપા હો સકતા હૈ. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

નિન્નાન્વે ફી સદ ઘરોં મેં T.V.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ દા'વતે ઈસ્લામી T.V. કે ઝરીએ ફૈલને વાલી ફહૂદાશી વ ઉર્યાની કે ખિલાફ બહોત પહલે હી સે અમલી જિહાદ મેં મસ્રૂફ હૈ. જિસ કી બ-ર-કત સે એક બડી તા'દાદ મેં T.V. ઘરોં સે બાહર હુએ. મગર ઈસ કે બા વુજૂદ T.V. ખરીદને વાલોં કી તા'દાદ કમ હોને કે બજાએ મઝીદ બઢતી જા રહી હૈ. અબ આલમ યેહ હૈ કે ઈસ વક્ત બદ કિસ્મતી સે નિન્નાન્વે ફી સદ સે ઝાઈદ ઘરોં મેં T.V. દાખિલ હોને મેં કામ્યાબ હો ચુકા હૈ. ઓર દિન રાત ગુનાહોં કા બાઝાર ગર્મ હૈ.

રહે વોહ એક ફી સદ લોગ જિન કે ઘરોં મેં T.V. નહીં હૈ તો વોહ ભી કિસી ન કિસી સબબ મ-સલન કિસી હાદિસે યા ના ગહાની આફત કી સૂરત મેં ઉસ કી તસ્વીરી ઝલ્કિયાં દેખને કે લિયે T.V. પર નઝર ડાલ હી લેતે હૈં. બિલ્ફર્જ અગર વોહ ઈસ સૂરત મેં ભી અપના દામન T.V. સે બચા લેતે હોં તો ભી ઉન મેં અક્સર એસે હોતે હોંગે જો અખ્બાર તો પઢતે હી હોંગે ઓર અખ્બાર પઢને વાલે કે લિયે ઈસ મેં છપને વાલી ના મહરમ ઓરતોં કી તસાવીર સે લાઝિમન બચા લેના બેહદ મુશ્કિલ હૈ. ઈસ સે બદ નિગાહી કી નુહૂસત સે હિફાઝત મેં દુશ્વારી કા અન્દાઝા લગાયા જા સકતા હૈ.

T.V. કા શર-ઈ ઇસ્તે'માલ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! જબ T.V. પહલે હી સે ઘરોં મેં દાખિલ હૈ ઓર ઈસ કા ના જાઈઝ ઈસ્તે'માલ ભી ભરપૂર તરીકે સે જારી હૈ ઓર ઈસ મેં ઈઝાફા હી હોતા ચલા જા રહા હૈ ઓર ઈસે ઘરોં સે નિકાલને કી ફિલ્હાલ કોઈ સૂરત નઝર નહીં આ રહી હૈ. એસે નાઝુક હાલાત મેં કે જબ શરીઅત મેં “મૂવી” કી ઈજાઝત કી સૂરત નિકલતી હૈ, અગર કિબ્લા શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત મૂવી કે ઝરીએ અપને પુર તાસીર સુન્નતોં ભરે બયાનાત ફરમાએંગે તો અલ્લાહ તઆલા કી રહમત સે ઉમ્મીદ હૈ કે ઈન બયાનાત કી બ-ર-કત સે લોગ ફિલ્મેં, ડિરામે, ગાને બાજે વગૈરા દેખને સુનને કે બજાએ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ T.V. પર સિર્ફ સહીહુલ અકીદા સુન્ની ઉ-લમા કે બયાનાત યા હમ્દો ના'ત સુનના શુરૂઅ કર દેંગે ઓર إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ T.V. કા ઈસ્તે'માલ શર-ઈ ઈજાઝત તક મહદૂદ હો જાએગા.

ઈસ કે ઈલાવા વોહ લોગ જો T.V. કે ના જાઈઝ ઈસ્તે'માલ કી નુહૂસત કે બાઈસ ફૈશન પરસ્તી ઓર ગુનાહોં કે દલદલ મેં ધંસતે ચલે જા રહે હૈં, અમીરે અહલે સુન્નત دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ કે સુન્નતોં ભરે ઈસ્લાહી બયાનાત ઓર પુર તાસીર જલ્વોં કી બ-ર-કત સે ઉન્હેં T.V. કે જાઈઝ ઈસ્તે'માલ કી બ-ર-કત સે તાઈબ હો કર ન સિર્ફ ફરાઈઝ વ વાજિબાત પર કારબન્દ હોના નસીબ હોગા બલકે વોહ સુન્નતોં કી ચલતી ફિરતી તસ્વીર બન કર આશિકાને રસૂલ કે હમરાહ મ-દની ઈન્આમાત કી ખુશ્બૂ સે મુઅત્તર મુઅત્તર સુન્નતોં ભરે મ-દની કાફિલોં કે ઝરીએ ઈસ કોશિશ મેં મસ્રૂફ હો જાએંગે કે મુઝે અપની ઓર સારી દુન્યા કે લોગોં કી ઈસ્લાહ કી કોશિશ કરની હૈ. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

સુવાલ : જિન ઘરોં મેં T.V. નહીં વોહ ક્યા કરેં ?

જવાબ : જિન ખુશ નસીબ લોગોં કે ઘરોં મેં T.V. અભી તક દાખિલ નહીં હુવા, ઉન્હેં અબ ભી T.V. ઘર મેં લાને કી કલ્મન હાજત નહીં, વોહ ઈસ બાત કો પેશે નઝર રખેં કે T.V. મેં બયાન વગૈરા કે ઝરીએ તો ઉન લોગોં તક પહોંચના મક્સૂદ હૈ જિન કે ઘરોં મેં T.V. મૌજૂદ હૈ ઓર વોહ ઈસ કે ના જાઈઝ ઈસ્તે'માલ કે ઝરીએ બરબાદી કે સામાન કર રહે હૈં. લિહાઝા અગર કોઈ અમીરે અહલે સુન્નત صلاة يوم الجمعة કી ઝિયારત કરના યાહે ઓર સુન્નતોં ભરે બયાનાત સે મુસ્તફીઝ હોના યાહે તો વોહ બ આસાની કમ્પ્યૂટર કે ઝરીએ અપની ઈસ મુબારક ખ્વાહિશ કો અમલી જામા પહના સકતા હૈ.

અમીરે અહલે સુન્નત ઓર T.V. પર બયાન

જબ શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી રઝવી دامت برکاتہم اجمعین સે અર્ઝ કી ગઈ કે આપ પહલે T.V. કો ઘર સે નિકાલને કા મશ્વરા ઈર્શાદ ફરમાતે થે ઓર કઈ ઈસ્લામી ભાઈયોં ને નિકાલ ભી દિયે મગર અબ આપ ખુદ હી T.V. પર બયાન ફરમાને લગે હૈં તો ક્યા એક બાર ફિર હમ ઘરોં મેં T.V. બસા લેં ? ઈસ પર આપ ને જવાબ ઈર્શાદ ફરમાયા,

T.V. કે નુક્સાનાત

અફસોસ ! સદ કરોડ અફસોસ ! આજકલ દુન્યા કે કરોડોં મુસલ્માનોં કે ઘરોં મેં T.V. હૈ ઓર ઈસ કી વજહ સે બુરાઈયાં બઢતી ચલી જા રહી હૈં.

T.V. પર એક તરફ ફિલ્મોં, ડિરામોં વગૈરા કે ઝરીએ અખ્લાક વ કિરદાર તબાહ ક્રિયા જા રહા હૈ તો દૂસરી તરફ ઈસ્લામ દુશ્મન અનાસિર ખુલ્લમ ખુલ્લા ઈસ્લામ કે ખિલાફ ઝહર ઉગલ રહે હૈં. નીઝ બા'ઝ લોગ ઈસ્લામ કા લુબાદા ઓઢ કર ઈસ્લામ કો મોડર્ન અન્દાઝ મેં પેશ કરને કી નાપાક સાઝિશોં કે ઝરીએ મુસલ્માનોં કે ઈમાનોં કો લૂટને મેં મશ્ગૂલ હૈં. અલ ગ-રઝ T.V. કે ઝરીએ બદ અમલી ઓર બદ અકીદગી ફૈલાને કા સિલ્સિલા ઝોરોં પર હૈ, એસે ના મુસાઈદ હાલાત મેં T.V. ઘર મેં રખના હી નહીં યાહિયે અગર હો તો ભી ફૌરી તૌર પર ઈસ કો નિકાલ દેના ઝરૂરી હૈ. રહે વોહ લોગ જિન કો T.V. સે રોકના મુશ્કિન નહીં, એસોં કી ઈસ્લાહ કે લિયે ઉ-લમાએ કિરામ કો ઝરૂર કોઈ રાહ નિકાલની યાહિયે.

ખૌફનાક ઝલ્લા

તા દમે અર્ઝ સિર્ફ દો મરતબા વોહ ભી ફકત આવાઝ કી હદ તક મેં T.V. પર આયા હૂં. પહલી બાર સબબ યેહ હુવા કે 3 ર-મઝાનુલ મુબારક સિને 1426 હિજરી કો સુબહ 8:45 પર પાકિસ્તાન કે બા'ઝ મકામાત મેં ખૌફનાક ઝલ્લા આયા, જિસ ને તબાહી મયા કર રખ દી, કમો બેશ દો લાખ અફરાદ ફૌત હુએ, ઝખ્મિયોં ઓર માલી નુક્સાનાત કા તો કોઈ શુમાર હી નહીં, મુસલ્માનોં કો દરપેશ આને વાલી ઈસ ક્રિયામતે સુગરા ઓર આફતે કુબ્રા કે મૌકેઅ પર الحمد لله عوجل દા'વતે ઈસ્લામી કી ખિદમામત મિસાલી થી મગર “ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા” સે દૂરી કે બાઈસ આમ મુસલ્માનોં કો ઈસ કી ઈતિલાઅ નહીં થી ઓર લોગ બદ ગુમાનિયાં કર રહે થે કે

अैसे आडे वक्त में अहले हक की सभ से बडी मजहबी तहरीक, दा'वते ईस्लामी क्यूं आमोश है ! युनान्चे तब्दीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'वते ईस्लामी के अजीम तर मझाद की खातिर मैं ने बैतुल इना (येह अभीरे अहले सुन्नत دَامَتُ بَرَكَاتُهَا के आस्ताने का नाम है) से इोन पर **T.V.** वालों के सुवालात के जवाबात दिये और दुआ भी की जो गालिबन 144 मुहकों में बराहे रास्त (LIVE) सुनी गई. जलाला जदगान की इम्दाद की तहसीलात सुन कर दुन्या भर के मुसल्मान أَحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ जूम उठे. म-सलन

अम्भई की मस्जिद में म-दनी काम

मुझे अम्भई (हिन्द) से अेक ईस्लामी भाई ने इोन पर बताया के हमारे यहां अेक मस्जिद में दा'वते ईस्लामी पर पाबन्दी थी. जलाला जदगान की इम्दाद से मुतअद्विक **T.V.** पर बयान Relay होने के बाद मज्कुरा मस्जिद की इन्तिजामिया ने अज जुद जिम्मादार से राबिता कर के बताया के हम ने इल्यास कादिरि का **T.V.** पर बयान सुना, हमें क्या मा'लूम था के आप हजरात आका عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की दुप्यारी उम्मत के इस क-दर हमदर्द हैं, दुआ भी सुनी और आज तक अैसी दुआ कभी नहीं सुनी थी, अब दा'वते ईस्लामी के लिये हमारे मस्जिद के दरवाजे 25 घन्टे खुले हैं. बराअे करम ! सुन्नतोंं भरे दसोंं बयान के जरीअे हमारे यहां के नमाजियोंं को इैजयाब कीजिये.

27 वीं शब की दुआ

जिन येनल पर बयान रिले हुवा था, लोगों ने उन की भी पूब पजीराई की लिहाजा उन्हों ने हुस्ने जन की बिना पर इज्जत के बिगैर ही 27 वीं शब र-मजानुल मुबारक सिने 1426 हिजरी की दुआ बराहे रास्त रिले करने के अे'लानात जारी कर दिये. म-दनी मर्कज ने **T.V.** वालों के हुस्ने जन की लाज रभते हुअे बाद तहफ्फुजात तै कर के इज्जत दे दी. तहफ्फुजात में येह भी शामिल था के दुआ वगैरा से कबल न मूसीकी होगी न ही औरत की तस्वीर व आवाज में अे'लान किया जाअेगा और दौराने दुआ इश्तिहार वगैरा भी नहीं दिया जाअेगा. युनान्चे दा'वते ईस्लामी के आलमी म-दनी मर्कज इैजाने मदीना बाबुल मदीना कराथी में होने वाले हरमैने तय्यिबैन के बाद दुन्याअे ईस्लाम के गालिबन सभ से अे अे'तिकाइ (जिस में कमो बेश 3100 मो'तकिईन थे) में र-मजानुल मुबारक (सिने 1426 हिजरी की 27 वीं शब को अन्दोजन लाभोंं मुसल्मानोंं को गुनाहोंं से तौबा करवा कर नमाजोंं की पाबन्दी और दीगर गुनाहोंं से बचने का अहद ले कर सरकारे गौसे पाक رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ का मुरीद करवाया गया और वहां पढी जाने वाली “अल वदाअ माहे र-मजान” और इस के बाद होने वाली दुआ की सिई आवाज **T.V.** के बाद येनल पर बराहे रास्त RELAY की गई.

T.V. पर येहरा दिखाना कैसा ?

T.V. के पर्देअे स्क्रीन पर सूरत के साथ जाहिर हो कर नेकी की दा'वत पेश करना मुतअदद उ-लमाअे अहले सुन्नत के नजदीक अगर्चे शर-अन दरुस्त है ताहम इस को देखने के लिये घर में **T.V.** हरगिज मत लाईये क्यूंके **T.V.** के अक्सर प्रोग्राम गैर शर-ई होते हैं, मैं जिस तरह

पहले T.V. मुखादिङ्ग था. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ इसी तरह अब भी मुखादिङ्ग हूँ, T.V. ने मुसल्मानों को अमली तौर पर तबाह करने में इन्तिहाई धिनौना किरदार सर अन्जाम दिया है. इस की उलाकत जेजियों की उलकियां मेरे बयान के तहरीरी रिसाले “T.V. की तबाहकारियां” में देभी जा सकती हैं.

आजकल T.V. मुआशरे का गोया حُرُولَايْنِكَ (या'नी कभी जुदा न होने वाला हिस्सा) बन चुका है और करोड़ों मुसल्मान T.V. पर नाय गाने और फ़िल्म बीनी के गुनाह में मशगूल हैं, हर तरफ़ बह अकीदगियों और बह आ'मादियों का सैलाब है, जैसे मैं अगर T.V. के जरीअे इन के घरों के अन्दर दाखिल हो कर अे'लाअे कलिमतुल उक (या'नी आवाजे उक बुलन्द करने) का मौकअ मिलता हो तो शरीअत के दाईरे में रह कर नेकी की दा'वत देना बेहद मुझीद है. जैसा के र-मजानुल मुबारक सिने 1426 हिजरी में म-दनी मर्कज़ कैजाने मदीना के अेक मो'तकिङ्ग ने मुजे (अमीरे अहले सुन्नत دائمة بركاتهم العلية को) कुछ इस तरह लिख कर दिया के हमारे घर का माडौल इस क-दर दीन से दूर था के माहे र-मजानुल मुबारक में भी नमाज रोज़ों का पास जेहन न था. दा'वते इस्लामी के म-दनी माडौल की ब-र-कत से घर भर में अकेला मैं ही अमलन मजहबी जेहन का था. र-मजानुल मुबारक में जब आप का (अमीरे अहले सुन्नत دائمة بركاتهم العلية का) बयान आया तो मैं ने T.V. ऑन कर के कस्दन उस की आवाज खूब बढ़ा दी, घर वाले मुतवज्जेह हो कर एकट्टे हो गअे जब हुआ हुई तो सब पर अेक हम रिक्कत तारी हो गई और सब ने रो रो कर गुनाहों से तौबा की. हुआ खत्म होने के बा'द मेरे अडे भाई ने पुर जोश लहजे में कहा, आज के बा'द फ़िल्में डिरामे और गाने बाजों के लिये कोई भी T.V. ऑन नहीं करेगा. بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

जहां तक घर में T.V. बसाने का तअद्लुक है तो इस जिम्न में अर्ज है के सिर्फ़ मजहबी प्रोग्राम देखने सुनने की निखत से भी घर में T.V. बसाने के उक में मैं नहीं हूँ, क्यूं के T.V. के मन्डी असरात (SIDE EFFECTS) बहोत जियादा हैं म-सलन आप को अगर तिलावत भी सुननी होगी तो T.V. जोलते ही मुराद भर आ जाना जरूरी नहीं इस के लिये शायद कई येनल से गुजरना पड़ेगा और यूं न याहते हुअे भी म्यूजिक सुनने और तरह तरह के बेहूदा मनाजिर देखने से वासिता पड सकता है ! नीज मजहबी प्रोग्राम भी अक्सर गुनाहों के बिगैर नहीं देखा जा सकता क्यूं के उमूमन इस के अक्वल आखिर बडे बीय में भी बे पर्दा औरतों पर मुशतमिल इश्तिलारात यलाअे जाते हैं. बिङ्गर्ज आप ने मजहबी प्रोग्राम देखने के लिये T.V. लिया और फ़िल्मों, डिरामों और बह अकीदा लोगों की तकरीर से बय भी गअे तब भी घर में दीगर अफ़राद के इब्तिला का शदीद अन्देशा है.

(माखूज अज रिसाला “अमीरे अहले सुन्नत के T.V. के बारे में तअस्सुरात”)

मूवी का शर-ई हुकम

सुवाल : क्या इरमाते हैं उ-लमाअे दीन व मुफ़्तियाने शरअे मतीन इस बारे में के मूवी बनाना और बनवाना कैसा है ? बहोत से उलमा से इस के बारे में सुना था के येह ना

જાઈઝ હૈ લેકિન ઈસ વક્ત કસીર તા'દાદ મેં ઉ-લમા ટી.વી પર આતે હૈં યા અપને જલ્સોં, મહફિલોં, ના'ત ખ્વાનિયોં કી મૂવી બનવાતે હૈં ઓર યેહ મૂવીઝ બાઝાર મેં આમ મિલતી હૈં. આપ ઈસ મસ્અલે કે બારે મેં અપની તહકીક સે મુત્તલઅ ફરમાએં.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ
الجواب بعون الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

ટીવી, વીડિયો કે મસ્અલે મેં ઉ-લમા કી આરાઅ મેં ઈખ્તિલાફ હૈ યુનાન્યે બા'ઝ ને ઈસે તસ્વીર પર ક્રિયાસ કરતે હુએ ના જાઈઝ કરાર દિયા ઓર બા'ઝ ને તસ્વીર હોને કી નફી કી ઓર ઈસે આઈને કે અક્સ કી મિસ્લ કરાર દેતે હુએ જાઈઝ કરાર દિયા કે જૈસે આઈને મેં નઝર આને વાલા અક્સ તસ્વીર કે હુકમ મેં નહીં બલકે વહાં અસ્લન તસ્વીર હી નહીં તો યહાં ભી યેહી હુકમ હૈ. યુનાન્યે ટીવી સ્કીન પર શુઆઓં સે બનને વાલે અક્સ પર તસ્વીર કા હુકમ દિયા જાના ગલત હૈ. બહર હાલ અગર યેહ સાબિત હો જાએ કે ટીવી સ્કીન પર નઝર આને વાલા અક્સ તસ્વીર હી હૈ તો અઝ રૂએ ક્રિયાસ ઈસ પર હુકમે હુર્મત હી હોગા. ઓર અગર ઈસ કે બર અક્સ તસ્વીર સાબિત ન હો તો જાઈઝ ઉમૂર કી મૂવી ફિલ્મ જાઈઝ હોગી. ઓર ઈમામે અહલે સુન્નત મુજદિદે દીનો મિલ્લત ઈમામ અહમદ રઝા ખાન વ સદરુશરીઆ બદરુત્તરીકા મુફ્તી મુહમ્મદ અમજદ અલી આ'ઝમી رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى કી કુતુબ સે યેહી ઝાહિર હૈ કે શુઆઓં સે બનને વાલે ઉક્સ તસ્વીર નહીં હૈં.

સચ્ચિદી આ'લા હઝરત ઈમામે અહલે સુન્નત અલ્લામા મૌલાના અશશાહ અહમદ રઝા ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ઈશાદ ફરમાતે હૈં :

**"سئلت غمن صلى وامامه مر آة فأ جبت با لجواز آخذا مما ههنا
إذ المر آة لم تعبدو لا الشبح المنطبع فيها ولا هومن صنيع الكفار
نعم ان كان بحيث يبدوله فيه صورته وافعاله ركوعا وسجودا
وقياما وعودا وظن ان ذلك يشغله فاذن لا ينبغى قطعاً -"**

(જહુલ મુખ્તાર, જિ.1, સ.311,312 ઈદારા તહકીકાતે ઈમામ અહમદ રઝા કરાચી)

મુઝ સે ઐસે શખ્સ કે બારે મેં સુવાલ ક્રિયા ગયા કે જિસ ને આઈને કે સામને નમાઝ પઢી તો મૈં ને યહાં બયાન કદા (શરહે મુન્નિયા કે) કૌલ સે અખઝ કરતે હુએ જવાઝ કા ફત્વા દિયા. ક્યૂંકે ન તો આઈને કી ઈબાદત કી જાતી હૈ ઓર ન ઈસ મેં કોઈ સૂરત છપી હોતી હૈ ઓર ન યેહ કુફર કી મસ્નૂઆત (યા'ની કુફર કે શઆઈર) સે હૈ. હાં અગર નમાઝ પઢને કે દૌરાન ઈસે અપની હરકાત મિસ્લે રુકૂઅ વ સુજૂદ વ ક્રિયામ વ કુઊદ નઝર આતી હો ઓર યેહ ખયાલ કરતા હૈ કે યેહ ઈસે નમાઝ સે મશગૂલ ઓર ગાફિલ કર દેંગી તો ઈસે આઈને કે સામને હરગિઝ નમાઝ નહીં પઢની ચાહિયે.

યૂં હી સદરુશરીઆ બદરુત્તરીકા મુફ્તી મુહમ્મદ અમજદ અલી આ'ઝમી رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى સે જબ ઈસી કિસ્મ કા સુવાલ ક્રિયા ગયા તો આપ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ને ઈશાદ ફરમાયા કે, “આઈના સામને હો તો નમાઝ મેં કરાહત નહીં હૈ કે સબબે કરાહત તસ્વીર ઓર વોહ યહાં મૌજૂદ નહીં. ઓર અગર

ઇસે તસ્વીર કા હુકમ દેં તો આઈને કા રખના ભી મિસ્લે તસ્વીર ના જાઈઝ હો જાએ હાલાંકે બિલ ઈજમાઅ જાઈઝ હૈ. ઓર હકીકતે અમ્ર યેહ હૈ કે વહાં તસ્વીર હોતી હી નહીં બલ્કે ખુતૂતે શુઆઈ આઈના કી સકાલત કી વજહ સે લૌટ કર ચેહરે પર આતે હૈં ગોયા યેહ શખ્સ અપને કો દેખતા હૈ ન યેહ કે આઈને મેં ઈસ કી સૂરત છપતી હૈ.”

(ફતાવા અમજદિયા, જિ.1, સ.184, મત્બૂઆ:મક્તબએ ર-ઝવિયા કરાચી)

ઈમામે અહલે સુન્નત મુજદિદે દીનો મિલ્લત ઈમામ અહમદ રઝા ખાન عليه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ઓર સદરુશરીઆ બદરુતરીકા મુફતી અમ્જદ અલી આ'ઝમી رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى કી ઈબારત સે યેહ બિલ્કુલ વાઝેહ હૈ કે શુઆઓ સે બનને વાલે ઉકૂસ તસ્વીર નહીં હૈં. લિહાઝા ટીવી ઓર વિડિયો ફિલ્મ કા જાઈઝ ઈસ્તે'માલ ભી જાઈઝ હુવા કે ઈન મેં નઝર આને વાલે પૈકર ભી શુઆઓ હી પર મુશ્તમિલ હોતે હૈં. ખુસૂસન સદરુશરીઆ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ કે ફત્વે સે દર્જે ઝૈલ ઉમૂર ઝાહિર હુએ.

(અવ્વલ) આઈને મેં નઝર આને વાલા અક્સ તસ્વીર કે હુકમ મેં નહીં બલ્કે વહાં અસ્લન તસ્વીર હી નહીં.

(દુવુમ) શુઆઓ સે બનને વાલે પૈકર કા નામ તસ્વીર નહીં હૈ બલ્કે અક્સ હૈ અગર્યે વોહ ઝાહિરી તૌર પર તસ્વીર કે મિસ્લ હી ક્યૂં ન હો.

(સિવુમ) જબ શુઆઓ સે બનને વાલા પૈકર તસ્વીર નહીં તો ખ્વાહ આઈને મેં ઐસા પૈકર બને યા ખારિજે આઈના કિસી ઓર ચીઝ પર, વોહ તસ્વીર નહીં ક્યૂંકે આઈને મેં બનને વાલે પૈકર સે તસ્વીર કી નફી આઈને કી વજહ સે નહીં બલ્કે શુઆઅ હોને કી વજહ સે હૈ. યેહી વજહ હૈ કે પાની પર ઓર ચમકદાર શૈ મ-સલન સ્ટીલ ઓર પોલિશ કિયે હુએ ફર્શ પર બનને વાલે વાઝેહ અક્સ કો ન તો તસ્વીર સમઝા જાતા હૈ ઓર ન હી ઈસ પર તસ્વીર કા ઈત્લાક કર કે ઈસે હરામ કહા જાતા હૈ બલ્કે ઈસે આઈને કે અક્સ કે મિસ્લ સમઝા જાતા હૈ.

હાલાંકે આઈને ઓર ઈન અશ્યા કે અજઝાએ તરકીબી કા ફર્ક કિસી ઝી અક્લ સે હરગિઝ પોશીદા નહીં હૈ. લિહાઝા ઝાહિર હુવા કે ઈન અશ્યા મેં બનને વાલે ઉકૂસ કો તસ્વીર કે હુકમ મેં સિર્ફ ઈસ લિયે નહીં દાખિલ કિયા જાતા કે યેહ શુઆઓ સે બનતે હૈં. જૈસા કે સદરુશરીઆ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ કી ઈબારત સે ઝાહિર હૈ.

હઝરતે ગઝાલિયે દૌરાં અલ્લામા સય્યિદ અહમદ સઈદ કાઝિમી رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ જાઈઝ વિડિયો ફિલ્મ કે જવાઝ કે કાઈલ થે. ઓર આપ عليه الرَحْمَةُ ને ટી.વી ઓર મૂવી કે જવાઝ પર લિખી ગઈ કિતાબ કી ઝોરદાર અન્દાઝ મેં તસ્દીક ફરમાઈ. યુનાન્યે આપ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ને ન સિર્ફ શહઝાદએ મુહદિસે આ'ઝમે હિન્દ કિછૌછવી رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ હઝરત અલ્લામા મુહમ્મદ મ-દની મિયાં અશરફી مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالَمِينَ કી વિડિયો ઓર ટીવી કે શર-ઈ ઈસ્તે'માલ સે મુતઅલ્લિક તહકીક કી તસ્દીક ફરમાઈ બલ્કે ઈસ તહકીક પર ઉન્હેં રઈસુલ મુહકિક્કીન કે શાનદાર લકબ સે ભી નવાઝા. આપ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ફરમાતે હૈં,

“રઈસુલ મુહકિક્કીન હઝરત અલ્લામા સય્યિદ મુહમ્મદ મ-દની અલ અશરફિયુલ જલાની دَامَتْ مَعَالِيَهُمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ મિઝાજ અકદસ ?”

હઝરત કા મકદૂરે ગિરામી શરફ સુદૂર લાયા. યાદ ફરમાઈ કા બેહદ શુક્રિયા. જનાબ કે ઈસાલ કદા ઈસ્તિફતા વ ફતાવા કો બગૌર સુના, તીનોં ફતાવા હઝરત કી ફહમ વ ઝકા ઔર તહકીક વ જુસ્તુજૂ કા મુંહ બોલતા શાહકાર હેં. બેશક જનાબ કી ઝહાનત ઔર ઈસ્તિખ્બાત લાઈકે સદ સતાઈશ ઔર કાબિલે તહસીન ઔર આફરીન હેં. આપ ને જિસ આસાની સે ઐસે મુશ્કિલ મસાઈલ કો આમ ફહમ અન્દાઝ મેં ઢાલ કર હલ ફરમાયા હૈ વોહ આપ હી કા હિસ્સા હૈ. બુઝુગાને દીન ઔર ઉ-લમાએ ઉમ્મત કે મુખ્તલિફ અક્વાલ કો જિસ ઉમ્દગી સે બયાન ફરમાયા હૈ ઔર જિસ હુસ્નો ખૂબી સે નિભાયા હૈ વોહ આપ કી ઈન્શિરાહે સદ્ર ઔર ઉલૂમે અક્લી ઔર નક્લી મેં મહારતે તામ્મા કા મઝહરે અતમ્મ હૈ. ખુસૂસન તર્જે ઈસ્તિદલાલ ઔર અન્દાઝે તહરીર બાઈસે રશક હેં.

મેં હર સહ ફતાવા મેં આપ સે મુત્તફિક હૂં. ખુસૂસન વિડિયો કેસેટ, ટીવી ઔર ફિલ્મ કે બારે મેં જિસ ક-દર અરક રેઝી સે જનાબ ને તહકીક ફરમાઈ ઔર ફિર જિસ ખૂબસૂરતી સે ઈન હકાઈક કી રૌશની મેં જાઈઝ વ ના જાઈઝ સૂરતોં મેં ઈમ્તિયાઝ કરતે હુએ ફતવા કલમબન્દ ફરમાયા વોહ કાબિલે તક્લીદ હૈ.”

(વિડિયો, ટીવી કા શર-ઈ ઈસ્તે'માલ, સ. 10)

www.dawateislami.net
 ઉ-લમાએ અહલે સુન્નત કે અક્વાલ સે ઝાહિર હૈ કે મૂવી ફિલ્મ તસ્વીર કે હુકમ મેં નહીં હૈ ઔર અઝ રૂએ શર-અ જાઈઝ ઉમૂર કી મૂવી ફિલ્મ દેખના, બનાના ઔર બનવાના જાઈઝ હૈ.

દૌરે હાઝિર મેં વિડિયો કા મસ્અલા ઈતના આમ હો ચુકા હૈ કે અગર કિસી બડે સ્ટોર મેં સામાન ખરીદ ને કે લિયે જાના પડે તો વિડિયો કા સામના કરના પડતા હૈ બલ્કે તરક્કી યાફતા મુમાલિક યા જહાં પૈસે કી રેલ પેલ હોતી હૈ વહાં તો ઉમૂમન હર સ્ટોર હી મેં વિડિયો કેમરે લગે હોતે હેં.

ઈસી તરહ તકરીબન હર હુસ્સાસ જહાહ પર હિફાઝત (Security) કે પેશે નઝર વિડિયો કેમરે નસ્બ કિયે જાતે હેં. ઔર આને જાને વાલે કો કઈ ઝાવિયોં સે દેખને કે લિયે એક સે ઝાઈદ વિડિયો કેમરે નસ્બ કિયે જાતે હેં. સરકારી તન્સીબાત પર ખુસૂસી ઈન્તિઝામ કિયા જાતા હૈ. યૂંહી હવાઈ જહાઝ સે સફર કિયા જાએ તો હવાઈ અડે મેં દાખિલ હોને સે લે કર હવાઈ જહાઝ મેં બૈઠને તક ઔર ઈસી તરહ જહાઝ મેં બૈઠને કે બા'દ સે હવાઈ જહાઝ સે ઉતરને તક બલ્કે ઈસ કે બા'દ ભી એરપોર્ટ સે નિકલને તક મુસલ્સલ વિડિયો કેમરે ચલતે રહતે હેં ઔર આદમી કી વિડિયો ફિલ્મ બનતી રહતી હૈ.

યૂંહી ઝિયારતે હરમૈન શરીફૈન કે લિયે અગર બ ઝરીએ હવાઈ જહાઝ જાયા જાએ તો ઉમૂમન અપને મુલક કે એર પોર્ટ સે લે કર અરબ શરીફ કે એર પોર્ટ તક મુસલ્સલ કેમરે કી ઝદ મેં રહના પડતા હૈ. ફિર મુઆમલા યહાં તક હી નહીં રહતા બલ્કે મસ્જિદૈને કરીમૈન મેં દાખિલ હોને કે બા'દ સે નિકલને તક મુસલ્સલ કેમરે કે ઝરીએ સે કઈ અતરાફ સે નિગાહોં મેં રખા જાતા હૈ.

मज़कूरा उमूर को जेहन में रખते हुअे ईस बात पर गौर इरमाअें के अरब व अजम, मशरिफ व मगरिब के सेंकड़ों उ-लमा व मशाएँज जहाजों में सइर करते हैं, यूरप व अमरीका व इंग्लेन्ड व अईका में आअे दिन तब्लीगे दीन के लिये आते जाते रहते हैं. हिन्दो पाक से यन्द् मशाहीर के नाम लिखे जाते हैं जो नइली उज व उमरह की सआदत हासिल करने और तब्लीगे दीन के लिये दुन्या के मुप्तलिफ मुमालिक में आते जाते रहे हैं और इन में बहोत से अब ली आते जाते हैं. म-सलन हिन्द से इकीहे आ'जमे हिन्द उजरते अल्लामा शरीफुल उक अमजदी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ, मुहदिसे कबीर अल्लामा जियाउल मुस्तफा आ'जमी, मुफ्तिये आ'जमे हिन्द उजरत अल्लामा अफ्तर रजा अजहरी, अबुल बरकात उजरत अल्लामा अभीन मियां बरकाती मारहदवी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِنُورِهِمْ असी तरह और दीगर उ-लमा व मशाएँज और पाकिस्तान से उजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कयूम उजारवी, कसीरुतसानीफ जामेउल मा'कूल व मन्कूल उजरत अल्लामा इैज अहमद उवैसी, मुनाजिरे इस्लाम शैबुल हदीस वत्तइसीर साहिबे "मकामे रसूल" رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उजरत अल्लामा मन्जूर अहमद इैजी, उस्ताजुल असातिजा उजरत अल्लामा मुहम्मद उसन उककानी, मुफ्ती अहमद मियां बरकाती, मौलाना अब्दुल अजीज उनई, उजरते मौलाना तुराबुल उक शाह साहिब, अल्लामा मौलाना अब्दुल उकीम शरफ कादिरि वगैरहुम رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. अब कोई अकल से पैदल ही होगा जो رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ इन मज़कूरा मशाहीर और दीगर उलमा पर इस्क का इत्वा लगाने की जरूअत करेगा. अल्लाह तआला औसी उव्ती अकल के शर से सारी उम्मत को मउकूज इरमाअे.

आज कुइइारे बह अत्वार अस्लिहे की जंग के साथ साथ टीवी और विडियो के जरीअे से मुसल्मानों के घरों में पड़ोय कर इस्लाम के बिलाइ उजर उगल रहे हैं. رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अपने बातिल दलाइल के जरीअे से इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की बे औब शान में गुस्ताबियां कर रहे हैं. यूंही तमाम अकसाम के गुमराह मजाहिब ने टीवी और वीडियो को अपने अकाईदे बातिला की तरवीज का जरीआ बना लिया है. जिस का जो दिल् याहे बकता है. इन लोगों ने मुप्तलिफ येनल के अवकात बरीद रभे हैं बल्के कादियानियों ने तो अेक अरसे से पूरा येनल शुइअ किया हुवा है जिस पर वोह बा काईदगी से रोजाना कई घन्टे अपने गुमराह कुन अकाईद का परचार करते हैं.

और ई जमाना हमारे मुआशरे का येह हाल है के टीवी और विडियो नई नस्ल की धुट्टी में पडे हुअे हैं. टीवी और विडियो मुआशरे के अइराद के लिये तइरीह का सामान ली है और हुसूले मा'लूमात का उमूमी जरीआ ली है. येह उकीकत है के बहोत से लोग अपने अकसर अवकात टीवी के सामने ही गुजारते हैं. लिहाजा जो कुछ टीवी में देभते हैं ज्वाह बुरा देभें या लला देभें. ईस से मुतअस्सिर हो जाते हैं और रइता रइता ईसे अपना लेते हैं और तहजीब का हिस्सा समजने लगते हैं. इन तमाम उमूर को सामने रभते हुअे येह बात बिल्कुल वाजेह हो जाती है के भूवी बनवाना जाईज है.

कुतुबे इिकहिय्या में ईस किस्म की कई मिसालें मिल जाती हैं के उ-लमा ने हावाते जमाना

કો દેખતે હુએ રાજેહ અકવાલ કો છોડ કર મર્જૂહ અકવાલ પર ભી ફત્વે દિયે જૈસા કે ખાતિમુલ ફુકહા અલ્લામા ઈબ્ને આબિદીન શામી رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ફરમાતે હૈં કે, “ફકીહ અબુલ્લૈસ સમરકન્દી رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ફરમાતે હૈં કે પહલે મૈં તીન બાતોં કી મુમાનઅત કા ફત્વા દિયા કરતા થા ઓર અબ ઈન કે જવાઝ કા ફત્વા દેતા હૂં. પહલે મૈં ફત્વા દેતા થા કે તા’લીમે કુરઆન પર ઉજરત લેના હલાલ નહીં, ઈસી તરહ ફત્વા દેતા થા કે આલિમ કે જાઈઝ નહીં કે વોહ સુલ્તાન (બાદશાહ) કી સોહબત ઈખ્તિયાર કરે ઓર આલિમ કે લિયે જાઈઝ નહીં કે વોહ દેહાતોં મૈં ઉજરત પર વા’ઝ કરને જાએ. મગર અબ તા’લીમે કુરઆન કે ઝિયાઅ કે ખૌફ, લોગોં કી હાજત કી ઓર દેહાતોં કી જહાલત કી વજહ મૈં ને ઈન સે રુજૂઅ કર લિયા.”

(રસાઈલ ઈબ્ને આબિદીન, જિ. 1, સ. 157, સુહેલ એકેડમી લાહૌર)

લેકિન ઈસ કે સાથ ઈસ બાત કા ખયાલ રખના નિહાયત ઝરૂરી હૈ કે યેહ હુકમ જાઈઝ વ હલાલ પ્રોગ્રામોં કે બારે મૈં હૈ, જૈસે ઉ-લમાએ અહલે સુન્નત કે બયાનાત, તિલાવતે કુરઆન ઓર ના’ત કી મૂવી. ઓર શાદી કે મૌકઅ પર જો ઓરતોં કી બે પદા મૂવિયાં યૂંહી ફિલ્મોં, ડિરામોં, ગાનોં, બાજોં કી મૂવિયાં બનાઈ જાતી હૈં વોહ સબ ના જાઈઝ વ હરામ હૈં.

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

www.dawateislami.net

અલ મુતખરિસિસ ફિલ ફિકહુલ ઈસ્લામી

મુહમ્મદ અકીલ રઝા અલ અત્તારિય્યુલ મ-દની

24 શા’બાન 1426 હિ. 29 સિતમ્બર 2005 ઈ.

અલ જવાબો સહીહ

અબસ્સાલેહ મુહમ્મદ કાસિમુલ કાદિરી

26 શા’બાન 1426 હિ. યકુમ અકતૂબર 2005 ઈ.